



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 234) पटना, बृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(पट0)—03—19/2009/124—श्री अवरार अरशद, सहायक अभियन्ता (आई0 डी0—4538) जब जल पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय में पदस्थापित थे तब उक्त प्रमण्डलान्तर्गत वर्ष 2009 में जमींदारी बांध में कराये गये बाढ़ संधार्षात्मक कार्य (खाड़ भराई) की जांच उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1242 दिनांक 25.8.10 द्वारा श्री अरशद से निम्नांकित प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिये स्पष्टीकरण पूछा गया:—

आरोप सं0—1. अभियन्ता प्रमुख के पत्र सं0—1415 दिनांक 18.6.09 द्वारा मिट्टी कार्य नरेगा योजना तथा कैरेज मशीन वर्ग का व्यय विभागीय मद से कराया जाय। कार्य से संबंधित पदाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन नहीं कर सम्पूर्ण कार्य संधार्षात्मक कार्य के रूप में करते हुए उसी के अनुरूप विभाग से भुगतान की मांग की गयी है।

आरोप सं0—2. मिट्टी कार्य मद में ग्री लेवल एवं प्रस्तावित पोस्ट लेवल के आधार पर मिट्टी मात्रा का आकलन की प्रक्रिया बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में अपनायी जाती है जो इस कार्य में किया गया है, परन्तु बाढ़ संधार्षात्मक कार्य के अनुरूप संवेदकों का नामांकन के आधार पर चयन किया गया।

आरोप सं0—3. संवेदकों का नामांकन प्रस्ताव पर स्वीकृति कार्य के पूर्व न कराकर प्रस्ताव वाद में भेजा गया। इस प्रकार अभियन्ता प्रमुख के आदेश के आलोक में मिट्टी का कार्य नरेगा योजना अन्तर्गत कराने का निदेश का पालन नहीं किया गया तथा जून माह में कार्य का रूप बाढ़ संधार्षात्मक देने का प्रयास किया गया है, जबकि मिट्टी की मणना बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के रूप में किया गया है।

श्री अरशद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री अरशद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से निम्न तथ्य अंकित किया गया है:—

आरोप सं0—1. अभियन्ता प्रमुख के पत्रांक—1593 दिनांक 02.07.09 में निहित आदेश के आलोक में विषयांकित कार्य आपातकालीन परिस्थिति में बाढ़ संधार्षात्मक कार्य के रूप में कराया गया क्योंकि निविदा आदि की प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता एवं बाढ़ आने की स्थिति में संभावित क्षति से बचाना दुष्कर होता। जिला पदाधिकारी, नालन्दा के ज्ञापांक 164 दिनांक 17.6.09 से आपातकालीन परिस्थिति में कार्य कराने के निदेश की सम्पुष्टि होती है। निर्धारित समय सीमा 30.6.09 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्य करा ली गई।

विषयांकित कार्य को नामांकन के आधार पर बाढ़ संधार्षात्मक कार्य के रूप में कराते हुए दैनिक प्रगति की सूचना प्रपत्र—24 में स्थलवार संवेदकवार विभाग को मुख्य अभियन्ता के माध्यम से दी गई एवं प्रतिवेदन को स्वीकृत करते हुए विभागीय ज्ञापांक 993 दिनांक 27.03.10 द्वारा आवंटन भी दी गई है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्धारित

अवधि दिनांक 30.6.09 तक में सिर्फ भारी मशीन से ही कार्य पूरा किया जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में मिट्टी का कार्य नरेगा से नहीं कराकर सम्पूर्ण कार्य को भारी मशीन Excavator द्वारा कराया गया।

आरोप सं०-2. यद्यपि विषयंकित कार्य बाढ़ संधर्षात्मक कार्य के रूप में जिला पदाधिकारी, नालन्दा का पत्रांक 164 दिनांक 17.6.09 एवं अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) के पत्रांक 1593 दिनांक 02.07.09 के निदेशानुसार कराया गया था। फिर भी मिट्टी की मात्रा का आकलन प्री लेवल एवं पोस्ट लेवल के आधार पर ग्राफ शीट पर की गई थी ताकि भुगतान की गई मिट्टी की मात्रा में कोई त्रुटि न रह पाय।

आरोप सं०-3. खोद भराई कार्य दस स्थलों पर प्रस्तावित था जिसमें दो अर्द्ध खोदों के नामांकन प्रस्ताव प्रमण्डलीय पत्रांक 540 दिनांक 17.6.09 तथा शेष आठ का प्रस्ताव पत्रांक 559 दिनांक 26.6.09 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को भेजा गया था। नामांकन प्रस्ताव के धटनोत्तर स्वीकृति विभागीय पत्रांक 912 दिनांक 29.3.10 द्वारा दी गई एवं तदनुसार 27.641 लाख रुपये का आवंटन भी विभागीय पत्रांक 993 दिनांक 27.3.10 द्वारा दी गई। इस संबंध में प्रस्ताव ससमय भेजा गया है।

श्री अरशत से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में निम्न तथ्य पाया गया:-

आरोप सं०-1. उक्त कार्य हेतु Specific आदेश था कि खौर की मरम्मत के कार्य में दुलाई एवं मशीन का व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। जबकि श्रम पर भुगतान नरेगा से किया जायेगा, परन्तु कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कुल 27,62,605/- रु० का प्रपत्र-24 विभाग को उपलब्ध कराया गया और विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति देते हुए इसका भुगतान भी कर दिया गया। यदि मनरेगा से इसमें श्रम अंश का भुगतान किया जाता तो विभाग को उतनी राशि की बचत हो सकती थी। अगर कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मनरेगा से यह संभव नहीं था तो उस समय विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये था जिसका कोई प्रयास श्री अरशत द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि विभागीय निदेश का उल्लंघन हुआ और विभाग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा है। अतएव यह आरोप प्रमाणित पाया गया।

आरोप सं०-2. कार्य में प्री लेवल और पोस्ट लेवल लिया जाना श्रेयस्कर है और इससे सही रूप से कराये गये कार्य का भुगतान होता है। चूँकि कार्य बाढ़ अवधि में कराया गया था इसलिए नामांकन के आधार पर कार्य कराया जाना नियमानुकूल माना गया। अतएव यह आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप सं०-3. संवेदक के नामांकन के संबंध में बाढ़ अवधि में अधीक्षण अभियन्ता को शक्ति सन्निहित होती है, और इस पर अभियन्ता प्रमुख की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अतएव यह आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में सरकार द्वारा प्रमाणित आरोप सं०-1 के लिये श्री अरशद को वर्ष 2009-10 की चारित्रि में निन्दन की सजा संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री अवरार अरशद, सहायक अभियन्ता (आई० डी०-4538) जल पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (नालन्दा) को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है:-

1. निन्दन वर्ष 2009-10 जिसकी प्रविष्टि वर्ष 2009-10 की चारित्रि में की जायेगी।

बिहार'-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन पासवान,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 234-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>